

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256575
SG-DL-E-23082024-256575असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 161
No. 217]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946	[N. C. T. D. No. 161

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अगस्त, 2024

सं.-13/2023-राज्य कर दर

सं. फा. 3 (06)वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/703.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त विभाग (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर दर, जिसे सा.फा.3(15)/वित्त(व्यय-I)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

इस अधिसूचना में, तालिका में,—

(1) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

1	2	3	4	5
“3ख	अध्याय 99	इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएं— (क) जलापूर्ति; (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य; (ग) स्वच्छता संरक्षण; (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और (ड) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।	शून्य	शून्य”;

(2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (क) में, भाबों “ डाक विभाग” के प” चात्, शब्दों और कोशठक “[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(3) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड(क) में, उप खंड (i) में, भाबों “ डाक विभाग” के प” चात्, शब्दों और कोशठक “[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(4) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, भाबों “ डाक विभाग” के पश्चात्, शब्दों और कोशठक “[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(5) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, भाबों “ डाक विभाग” के पश्चात्, शब्दों और कोशठक “[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर 2023 से लागू होगी।

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 12/2017 राज्य कर दर को दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV धारा 3, उपधारा (i) में, जिसे सा. फा. 3(15)/वित्त(व्यय-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2023-राज्य कर (दर), दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV धारा 3, उपधारा (i) में, जिसे सा. फा. 3(21)/ वित्त(व्यय-1)/2023-24/डीएस-I/94, दिनांक 30 जनवरी, 2024 के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय- I)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd August, 2024

No. 13/2023-State Tax Rate

No. F. 3 (06)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/703.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the Government’s Notification No.12/2017-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(1.) after serial number 3A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3B	Chapter 99	Services provided to a Governmental Authority by way of - (a) water supply; (b) public health; (c) sanitation conservancy; (d) solid waste management;and (e) slum improvement and upgradation.	Nil	Nil”;

- (2.) against serial number 6, in column (3), in item (a), after the words “Department of Posts”, the words and brackets “and the Ministry of Railways (Indian Railways)” shall be inserted;
- (3.) against serial number 7, in column (3), in the Explanation, in item (a), in sub-item(i), after the words “Department of Posts”, the words and brackets “and the Ministry of Railways (Indian Railways)” shall be inserted;
- (4.) against serial number 8, in column (3) in the proviso, in item (i), after the words “Department of Posts”, the words and brackets “and the Ministry of Railways (Indian Railways)” shall be inserted;
- (5.) against serial number 9, in column (3), in the first proviso, in item (i), after the words “Department of Posts”, the words and brackets “and the Ministry of Railways (Indian Railways)” shall be inserted;
2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

Note : The principal notification no. 12/2017 - State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification no. 07/2023 - State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (21)/Fin(Exp-I)/2023-24/DS-I/94, dated 30th Jan, 2024.

By Order and in the Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)